



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1930 (श0)
(सं0 पटना 587) पटना, सोमवार 29 दिसम्बर 2008

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा

कार्यालय आदेश
30 अप्रील 2008

सं0 723-अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 16.01.2006 की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, नवादा के कार्यावाही ज्ञापांक 02 दिनांक 30.01.2006 से प्राप्त अनुशंसा एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक 450, दिनांक 22.06.2007 एवं 274 दिनांक 26.03.2008 एवं स्थापना उपसमाहर्ता, नवादा के पत्रांक 209, दिनांक 18.03.2008 एवं जिला पदाधिकारी, नवादा के टिप्पणी आदेश दिनांक 18.04.2008 के निर्देशानुसार तथा दिनांक 30.04.2008 को जिला शिक्षा स्थापना समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सनातन कुमार पिता- स्व0 भोला नाथ पाण्डेय, सहायक शिक्षक, उ0 वि0 पाण्डेय गंगौट, अंचल- कौआकोल, ग्राम-करमा, पो0-कैवाली, थाना-कौआकोल, जिला- नवादा को वेतनमान रु0 3050-75-3950-80-4590 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते के साथ अनुकम्पा के आधार पर राजकीय कृत उच्च विद्यालय, लाल बिगहा (नवादा) में तृतीय वर्गीय कर्मचारी के रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के साथ योगदान की तिथि से नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।

3. नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की गलत सूचना एवं तथ्यों अथवा कागजातों तथा अन्य किसी प्रकार के धोखाधड़ी या जालसाजी पाये जाने पर अविलम्ब सेवा समाप्त कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
4. मेरी नियुक्ति अभ्यर्थी मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भरण-पोषण नहीं करते हैं तो उनके परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्य को देय होगा।
5. दहेज नहीं लेने एवं देने का धोषणा पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी समय बिना सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
7. आवेदक का आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।
8. उप सचिव वित्त विभाग के पत्रांक 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 1.9.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेन्शन लागू होगी।
9. उच्चाधिकारी का अन्य आदेश तथा माननीय न्यायालय से कोई अन्य आदेश प्राप्त होने पर नियुक्ति प्रभावी होगा।

ह0/अस्पष्ट,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नवादा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 587-571+000-डी0टी0पी0।